

Ref.No. Z-IV/R-39/D-2/NSE/207 & 174

Date : 10/05/2017

National Stock Exchange of India Ltd. Listing Deptt., Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051	BSE Ltd. Regd. Office: Floor - 25, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai-400 001.
NSE Script: MINDAIND	BSE Script: 532539

Sub: Publication of Notice of the Board Meeting of the Company in the newspapers - Board Meeting to be held on 16 May, 2017

Ref: Regulation 47(1)(a) of SEBI (LODR) Regulations, 2015


Dear Sir(s),

This is in continuation to our earlier communication dated 6 May, 2017, we are pleased to enclose herewith the **newspapers cuttings** wherein the Notice of the company was published on 10 May, 2017 in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) newspapers regarding the above subject matter.

It is for your information and records please.


Thanking you.

Yours faithfully,
For MINDA INDUSTRIES LTD.



✓ H.C. DHAMIYA
V.P. Group Accounts, Legal, Secretarial
Indirect Taxes & Co. Secretary

Encl: As above.



This is the first time that a sitting High Court judge is being sent to jail by the Supreme Court on charges of contempt

It said the contempt power does not recognise who is what, whether he is a judge and individual or a private person and that it is simple contempt.

"If we do not send him to jail, there will be a blemish that Supreme Court has condoned the contempt committed by a judge," the bench observed.

It said Justice Karnan can be punished as he has himself declared that he was of sound mind and the medical board has not contradicted it.

However, the apex court barred media from publishing the contents of further orders passed by Justice Karnan, who on Monday issued an order sentencing eight Supreme Court judges to five years of 'rigorous imprisonment' and imposed a fine of ₹1,00,000 each under the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act of 1989 and the amended Act of 2015.

While the Supreme Court had ordered Justice Karnan to be medically examined, he had refused to undergo the medical tests on May 4 and told the team of doctors, in a written response, that he was 'absolutely normal and with a stable mind'.

ASG Maninder Singh argued that the sitting justice needs to be punished for contempt of court as he has passed several orders against the judges of the apex court. Justice Karnan had on Monday 'sentenced' the Chief Justice of India and seven other judges of the Supreme Court to five years rigorous imprisonment.

Senior advocate K K Venugopal, appearing for registrar general of Madras high court, said that if Justice Karnan is sent to jail, it would create a blemish of a sitting judge being sent to jail for contempt.

On March 10, the apex court issued a bailable warrant against Justice Karnan after he failed to personally appear in court for the second time in the contempt case against him which was initiated after he continuously levelled allegations against the Madras HC Chief Justice and other judges.

For details please log on to tender section of our website www.bankofbaroda.com/tender. The last date for submission of the offers is 01-06-17 upto 17.00 hours.
Dy. General Manager

MINDA INDUSTRIES LIMITED
CIN: L74899DL1992PLC050333
Regd. Office: B-64/1, Wazirpur Industrial Area, Delhi-110052
E-mail: hcdhamija@mindagroup.com | Web: www.mindagroup.com

UNO MINDA
BY MINDA GROUP

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, 16 May, 2017 at 11.00 a.m. at its works at Village Nawada Fatehpur, PO Sikandarpur Badda, Near IIT Manesar, Gurgaon, Haryana, Inter-alia, to consider and approve the audited standalone and consolidated financial results of the Company for the quarter and year ended on 31 March, 2017 and to recommend final dividend, if any.

The Notice is also available on the website of the company www.mindagroup.com and also on the website of stock exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com

For and on behalf of the Board of Minda Industries Limited
J.C. DHAMJIA,
Vice President - Group Accounts, Legal, Secretarial, Indirect Taxes & Company Secretary

Place: Gurgaon (Haryana)
Date: 8 May, 2017

Bank of India
Relationship beyond banking

New Delhi Asset Recovery Branch,
Star House, 3rd Floor,
H-2, Connaught Circus, New Delhi
Asset Recovery, New Delhi@bankofindia.co.in
Ph. 23755605-5606

POSSESSION NOTICE
(Under Section 13 (4) of Securitization Act, 2002)

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of The Bank of India, New Delhi Asset Recovery Branch under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand Notice dated 26-10-2016 calling upon the borrowers Mr Ashwani Kumar (Prop. of M/s Alot Marketing & Distributors Co.) to repay the amount mentioned in the notice being Rs.1,02,31,192.74 (Rs. One crore two lakh thirty thousand one hundred ninety two and paise seventy four), plus further interest from 26-10-2016 and other charges) within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The Borrowers having failed to repay the amount to the banks, notice is hereby given to the borrowers and the public in general that the undersigned has taken possession of the immovable property described herein below in exercise of powers conferred on him/therunder section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said rules on this 8th day of May 2017 on behalf of the bank i.e. Bank Of India.

The Borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the BANK OF INDIA, New Delhi Asset Recovery Branch, NEW DELHI for an amount Rs 1,02,31,192.74 on 26-10-2016 & interest thereon.

Description of the Immovable Property

All that part and parcel of the property charged by way of equitable mortgage, bearing No. RZ-48, Gali No.1, Village Nasirpur, Durga Park, New Delhi-110045 owned by Mr Ashwani Kumar (Prop. of M/s Alot Marketing & Distributors Co.) to Bank Of India.

Bounded: On the North by Shiv Temple
On the South by Office (Congress Party)
On the East by Post Office
On the West by DDA Flats

Dated: 10-05-2017
Place: Delhi

Sd/-, Authorized Officer,
Bank of India

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF INVESTMENT & PUBLIC ASSET MANAGEMENT
ENGAGEMENT OF ADVISOR
FOR STRATEGIC DISINVESTMENT OF SCOOTERS INDIA LIMITED

The Government of India intends disinvest 93.74% of equity of Scooters India Ltd out of its shareholding through strategic sale with transfer of management control. Scooters India Ltd is engaged in developing/manufacturing/marketing of three wheelers and quality engineering products.

2. The Gov proposes to engage Transation Advisor, being a reputed professional consulting firm, investment banker, merchant banker, financial institution or a bank for providing Advisory services and managing the disinvestment process. Proposals are invited by 1500 hours (IST) on 1st June, 2017. For details, interested parties may visit website:
www.dipam.gov.in,
www.scootersindia.com and
www.dhi.nic.in

davp 15601/11/0008/1718

CIN: L74899DL1992PLC050333, E-mail: shareholderquery@bni.in, Website: www.bni.com, Phone: 011-6637000, Fax: 011-26493021

NOTICE

Notice is hereby given that the company has received intimation from the following Shareholders that the certificate(s) pertaining to the equity shares as detailed below has been lost/misplaced:

Sl No.	Name of Shareholders	Folio No.	No. of Shares	Certificate Nos.	Distinctive Nos.
1.	ERRAMILI SATYAMURTHY ERRAMILLI SARADA	014180	2000	801922	825231-827230

If the company does not receive any objection within 15 days from the date of publication of this notice, the company will proceed further to issue duplicate share certificate(s) to the aforesaid shareholders. Public are hereby cautioned not to deal with the above share certificate(s) anymore and the company will not be responsible for any loss/damage occurring thereby.

For BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD.
Sd/-
(I.P. Singh)
Company Secretary

Date: 9th May, 2017
Place: New Delhi

DHANVANTRI JEEVAN REKHA LTD.
1, Sahel, Meerut - 200 003, Ph. 0121-2645151-52, 2651801 Fax 0121-2651603
e-mail: dhanvantrihospital@gmail.com; website:www.djrl.org.in

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, NOTICE is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, the 31st day of May, 2017, at 02:00 P.M. at Meerut, Inter alia, to consider and take on record the Audited Financial Results of the Company for Quarter and year ended on 31st March, 2017.

The notice shall also be available at website of the company i.e. www.djrl.org.in and may also be available on the website of the Stock Exchange, BSE i.e. www.bseindia.com

Place- Meerut
Date- 08.05.2017

For Dhavantri Jeevan Rekha Ltd.
(Dr. V.S. Phull) Managing Director

FORM NO. 5
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL
600/1, University Road, Hanuman Setu Mandir, Lucknow

(Area of Jurisdiction, Part of Uttar Pradesh)
SUMMONS FOR FILING REPLY & APPEARANCE BY PUBLICATION
Date: 05.05.17

Summons to defendants under Section 19(3) of the Recovery of Debts due to banks and financial institution Act, 1993 read with Rules 12 and 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993.

Original Application No. 1285 of 2016
Bank of Baroda VS. M/S OATH NEXT GENERATION-PC & ORS

1. M/S OATH NEXT GENERATION-PC through its proprietor Mr. Oum Ji Dixit, Registered office A-1028 Indira Nagar, Lucknow, U.P.	...DEFENDANTS
2. OUM JI DIXIT S/O Mr. Chandra Prakash Dixit, Registered office A-1028 Indira Nagar, Lucknow, U.P.	

In the above noted Original application you are required to file reply in Paper Book form in two sets along with documents and affidavits (if any) personally or through your duly authorised agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the applicant or his counsel/duly authorised agent after publication of the summons and thereafter to appear before the Tribunal on 18/07/2017 at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Registrar
Debts Recovery Tribunal, Lucknow

DTC India Limited
CIN: L51226DL1918PLC306032
Regd Office: 3rd Floor, 417-B, Asaf Ali Road, New Delhi - 110002
Tel: +91-11-42322200 Fax: +91 011 23203088

NOTICE

Notice is hereby given that, pursuant to Regulation 47(1)(a) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Monday the 15th May, 2017 at 11:30 A.M. at the Registered Office of the Company, 3rd Floor, 4/17 - B Asaf Ali Road, New Delhi - 110002 to, inter alia, consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended March 31, 2017.

For DTC India Limited
Sd/-
D.K. Singh
Date: 08.05.2017 Whole-Time Director
Place: Delhi DIN: 05411142

SBEC SUGAR LIMITED
CIN: L15421UP1991PLC019160
Regd. Office: Village Lohan Mokapur, Teh. Baraut, Dist. Baghat, U.P.
Email: investors@sbecsugar.com
Website: www.sbecsugar.com

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Monday, 29th May, 2017, Inter alia to consider and approve the Audited financial results of the Company for the quarter/year ended on 31st March, 2017.

The information contained in this notice is also available on the website of the Company i.e. (www.sbecsugar.com) and the website of the stock Exchange i.e. (www.bseindia.com).

By Order of the Board
For SBEC Sugar Limited
Sd/-
Shobhi Nehra
Company Secretary & Compliance Officer

Place: New Delhi
Dated: 9.5.2017

VLS VLS
Regd. Office: New Delhi
Fax: 91(11) 23203088

STATEMENT OF STANDALONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS

Particulars

Total Income from Operations (Net)	
Net Profit/(Loss) from Ordinary activities	
Net Profit/(Loss) for the period after tax	
Paid Up Equity Share Capital (Face Value)	
Reserves excluding Revaluation reserves on March 31, 2017:	
-Basic	
-Diluted	
Earning Per Share (after Extraordinary items)	
-Basic	
-Diluted	

(* Not annualised)

The above is an extract of the detailed format of Disclosure Requirements Regulations, 2015, and on the website of the stock exchanges viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com.
Exceptional and/or Extraordinary items adjusted

The Board of Directors have recommended dividend approval of the members at the ensuing Annual General Meeting of the Company. The figures for the quarter ended 31st March, 2017, figures up to third quarter of the relevant financial year.

Place: New Delhi
Date: 08-05-2017

